

## दिल्ली प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन

### त्योहारो के उत्साह से श्रंगारित अगस्त मास

दिल्ली प्रदेश के सभी क्षेत्र कृष्ण भक्ति, स्वाधीन भारत की शक्ति, Ramp का आत्मविश्वास, परिधानों के सौंदर्य, शहनाई की गूँज से भरे तरंगित रहे।

**व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति** पूजा थाली सज्जा,ममत्व,फैंसी ड्रेस, झांकी सजाओ, लघु नाट्य प्रतियोगिताओ ने सखियों का कौशल विकास बढ़ाया।

### ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति

पेड है तो जीवन है मैं विश्वास रख स्वाधीनता दिवस पर भारी संख्या में वृक्षारोपण किया गया।

परोपकार ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है को धारण करने वाले दिल्ली प्रदेश ने जरूरतमंद माहेश्वरी छात्र के विद्यार्जन के लिए 80000 की राशि जुटाई।

**विवाह सम्बन्ध सहयोग गठबंधन समिति** विवाह योग्य युवक-युवतियों के आपसी परिचय के लिए ऑनलाइन परिचय सम्मेलन आयोजित था जिसमें 61 कैंडिडेट्स ने स्वयं का परिचय दिया। इस आयोजन से 170 परिवार जुड़े। 17 ऐसे मधुमय रिश्ते जुड़े जिनके Bio Datas गठबंधन ग्रुप में थे।

### महिला अधिकार एवं सशक्तिकरण समिति

जन्माष्टमी का आयोजन लाला के लिए फलाहारी भोजन की प्रतियोगिता से हुआ। फलाहारी विडियोज ने यह दर्शाया की हमारे रसोई घर में जब भोजन कृष्णार्पण के लिए बनता है, तब वह अमृत तुल्य बन जाता है और वितरण के लिए महा प्रसाद। यही महा प्रसाद इस प्रतियोगिता के रूप में दिल्ली प्रदेश को मिला था जिसके कण कण में लाला के जन्मोत्सव का अद्वितीय स्वाद, सुगन्ध और रंग था। नारी एक अभिव्यक्ति आयोजन से भारत की सशक्त नारियो को अभिनीत किया गया।

### बाल विकास एवं किशोरी विकास समिति

फैशन शो ने माहेश्वरी परिवारों के होनहार, मेधावी, कला प्रिय बाल एवं किशोर पीढ़ी को रैम्प प्रदान किया। सारा शो वातावरण को Eco Friendly बनाने तथा भारतीय परिधानों के सौन्दर्य के रेशमी धागों से बुना हुआ था जिस पर हमारे होनहार बच्चों ने अपने परफॉर्मेंसेस से कसीदा जड़ दिया। सभी क्षेत्रों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। अनेक प्रदेशों के गरिमामय परिधान लहरा उठे, असंख्य फूल महक गए, पर्यावरण सुरक्षा के लिए नानाविध संकल्प ज्योतिर्मय हो उठे। पेंटिंग,फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों की कल्पना शक्ति उभर कर आयी।

**कम्प्यूटर नेट वर्किंग समिति** सभी बहनें जूम पर , नानविध Apps पर सक्रिय हैं।

साहित्य चिन्तन मनन समिति राधा अष्टमी दोहे और पदावलियों से मनायी गयी।

### पर्व एवं संस्कृति समिति

कृष्ण पर आधारित तम्बोला खेला गया। गणेश चतुर्थी नृत्य संगीत,स्तुतियों, भजनों, क्विज़ से मनाया गया।

### स्वाध्याय एवं अध्यात्म समिति

गीता की पाठशाला में कृष्ण लीलाओ को फिल्म के माध्यम से दर्शाया गया.

अनेक आयोजनों में गणमान्य राष्ट्रीय पदाधिकारी गण उपस्थित थे जिनके उद्बोधन ने सभाओं को ऊर्जस्वित और तेजोमय किया।

सभी क्षेत्रों की सहभागिता से तीज त्यौहारों के रस में आकंठ निमज्जित:

अध्यक्ष: श्यामा भांगडिया

सचिव : प्रभा जाजू